



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 874 राँची, शुक्रवार

20 अग्रहायण, 1937 (श०)

11 दिसम्बर, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

4 दिसम्बर, 2015

संख्या-SUDA/SCM/SPV/-10/2015 - 4485 -शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संचालित योजना 'स्मार्ट सिटी मिशन' के अंतर्गत भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है। इस योजना के लिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा झारखण्ड राज्य के एक शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी 98 संभावित स्मार्ट शहरों में झारखण्ड राज्य की राजधानी राँची को भी शामिल किया गया है। प्रथम चरण में बनने वाले 20 स्मार्ट शहरों की चयन प्रतियोगिता के लिए राँची नगर निगम द्वारा परामर्शी एवं **Handholding Agencies** की सहायता से **Smart City Proposal** का निर्माण किया जा रहा है। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के अनुसार

Smart City Proposal को 15 दिसंबर, 2015 तक उपलब्ध कराना है, जिसके मूल्यांकन के पश्चात् प्रथम 20 शहरों की घोषणा की जाएगी ।

स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के भारत सरकार के शीर्ष समिति द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् **Special Purpose Vehicle (SPV)** का गठन कर योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा । योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के विभिन्न शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रस्तावित **SPV** एवं स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (**HPSC**) को किया जाना है ।

अतः स्मार्ट सिटी मिशन की दिशा निर्देशिका के अनुलग्नक 5 के कंडिका 4.1.4 पर वर्णित शक्तियों के प्रत्यायोजन के क्रम में, जिन मामलों में राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित हो, उन्हें स्मार्ट सिटी मिशन के लिए गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (**HPSC**) के स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रत्यायोजित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।
